

November 4, 2020

The Secretary,  
Listing Department,  
BSE Limited  
1<sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400 001  
Scrip Code: 539289

The Manager,  
Listing Department,  
The National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, C-1, Block-G,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai – 400 051  
Scrip Code: MAJESCO

Dear Sir/ Madam,

**Sub: Submission of corrigendum to Public announcement for the buyback of equity shares of Majesco Limited (“the Company”)**

This is in reference to our letter dated November 3, 2020, submitting the public announcement for buyback of equity shares of the Company. Please find attached a copy of the corrigendum to public announcement made and published in the following newspapers on November 4, 2020:

1. Business Standard (English) (all editions)
2. Business Standard (Hindi) (all editions)
3. Navshakti (Marathi) (Mumbai edition)

This is for your information and record.

Thanking you,

**For Majesco Limited**

**Varika Rastogi**  
Company Secretary

Encl.: as above.

# Merc's AMG models cheaper by ₹25 lakh

German automaker has invested ₹400 crore for local assembly of performance cars to make them affordable

SHALLY SETH MOHILE  
Mumbai, 3 November

A decade after Mercedes-Benz introduced its range of performance cars under the AMG stable in India, the company has started the local assembly of the GLC AMG 43 as part of a larger strategy to make performance cars more affordable. Compared to a fully imported model, the local production makes the model cheaper by ₹25 lakh.

The company plans to assemble more AMGs locally. The move will help the firm grow its overall volumes at a rapid pace in India, said the company's top executive. Mercedes has invested ₹400 crore in the last couple of years for local assembly of models. With this, the luxury car market leader will be producing the new-generation cars, sedans, sport utility vehicles (SUVs), and AMG performance cars at one facility, the company said in a statement. Mercedes' facility near Pune has an annual installed capacity of 20,000 cars.

"The technologies, market trend, and customer requirements are changing rapidly and we have kept pace with the changes. The AMG models have been seeing good upswing in demand and it made sense to make them affordable. Commencing local assembly is a step in that direction," said Piyush Arora, executive director-operations, Mercedes-Benz India.

The local production of the GLC AMG makes it cheaper by ₹25 lakh, he said. India levies 102 per cent import duty on cars that come into the country as a completely built-up unit. Priced at ₹76.7 lakh, the GLC is powered by 3-litre V6 bi-turbo engine that produces 390 horsepower, or hp (287 kilowatt, or kW), 23 hp (17 kW) more than the previous model. It comes with a choice of five drive programmes: 'slippery', 'comfort', 'sport', 'sport+', and 'individual'.

Mercedes has launched 10 new models for the Indian market this financial year. Of these, five—the latest being the GLC AMG Coupé—are from the AMG stable. This underscores the crit-



icality of the brand for the company, says Arora. Cars under the AMG brand grew over 54 per cent in 2019. The market size of such performance cars is 900-1,000 units per month and Mercedes accounts for half the market.

Mercedes introduced the AMG range in India a decade back, but started considering local assembly after volumes started showing good traction. Meanwhile, touching upon the impact of the recent quality audit order that makes it mandatory for manufacturers to get a Bureau of Indian Standards certification for imported parts and aggregates, Arora said it will have an impact on the timeline of launches and may lead to some delay. Mercedes continues to be in dialogue with the government through Society of Indian Automobile Manufacturers on the issues. "If nothing happens, we will have to live with it," he said.

India's luxury car market—which accounts for less than 1 per cent of total passenger vehicles sales—has been battered by the Covid-19 pandemic. Sales, however, have started looking up with the onset of the festive season.

Mercedes-Benz India sold 5,007 cars and SUVs in the nine months to the year, posting 49.5 per cent year-on-year decline. For the first time since the outbreak of Covid, the company's September sales reached pre-lockdown levels, pointing to recovery in sales and a strong buyer sentiment.

**GUFIC BIOSCIENCES LIMITED**  
CIN: L24100MH1984PLC033519  
Regd. Office: 37, First Floor, Kamala Bhavan II, S Nityananda Road, Andheri East, Mumbai 400 069.  
Phone: (022) 67281000, Fax: (022) 67281008  
email: info@guficbio.com website: www.gufic.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, November 12, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

The above information is available on the Company's website viz. www.gufic.com and also available on the website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Gufic Biosciences Limited  
Sd/-  
Ami Shah  
Company Secretary  
Mem. No. AS9579  
Mumbai  
03.11.2020

**CORAL INDIA FINANCE AND HOUSING LIMITED**  
CIN NO. L67190MH1995PLC084306  
Regd. Office: 4th Floor, Dalamal House, J B Marg, Nariman Point, Mumbai-400021  
Tel No: 022-2285 3910/11  
Fax No: 022-22825753  
Website: www.coralhousing.in  
Email: cs@coralhousing.in

**NOTICE**  
NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, November 10, 2020 *inter alia* to consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the company for the quarter and half year ended September 30, 2020.

The Copy of notice is also available on the website of the Stock Exchanges, BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at (www.nseindia.com) where the Company's shares are listed and on the Company's website (www.coralhousing.in).

We further inform that the trading window for dealing in securities of the Company has been closed for designated employees/insiders from October 01, 2020 till the close of trading hours of November 12, 2020

For Coral India Finance and Housing Limited  
Sd/-  
Riya Shah  
Company Secretary & Compliance Officer  
Date: November 03, 2020  
Place: Mumbai

**IIFL FINANCE**

Good times,  
Challenging times,  
Trust us to do

#SeedhiBaat

GOLD LOAN HOME LOAN BUSINESS LOAN

**Highlights of IIFL Finance Limited (Consolidated) Results for the Quarter Ended September 30, 2020**

<b>Loan AUM</b>	<b>Total Income</b>	<b>Profit After Tax</b>	<b>RoE / RoA</b>	<b>Provision Coverage Ratio</b>
₹40,843 Cr ↑ 7% QoQ	₹857 Cr ↑ 27% QoQ	₹205 Cr ↑ 582% QoQ	17.1% / 2.4% Previous Quarter 2.6% / 0.4%	114% Previous Quarter 101%

₹ Crore	Quarter Ended Sept 30, 2020	Quarter Ended June 30, 2020	Growth QoQ %	Quarter Ended Sept 30, 2019	Growth YoY %
Income (Net)	856.9	672.5	27%	589.0	45%
Pre-Provision Operating Profit	563.3	397.1	42%	277.8	103%
Profit Before Tax	278.7	57.3	386%	118.9	134%
Profit After Tax (TCI)	205.1	30.1	582%	73.8	178%

Detailed quarterly financial results are available on the Stock Exchange website viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website viz. www.iifl.com

**IIFL Finance Limited** CIN: L67100MH1995PLC093797  
IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No. B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604  
IR@iifl.com www.iifl.com

**www.bankofbaroda.in**

**बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda**

**NOTIFICATION FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATES**

Notice is hereby given that the following Share Certificates of Bank of Baroda are reported to have been Lost:-

Sr. No	Folio No.	Name/Joint Names	Share Certificates No (s)	Distinctive No.		No. of Shares
				From	To	
1	BBE108377	JITUBHAI PIRABHAI LUHAR	2017136	11746326	11746825	500
2	BBE121450	MADANBAHI MALI	2020015	13482331	13482830	500
3	BBE265108	NANDAN PETROCHEM LIMITED	2027604	18895346	18897845	2500
4	BBE264436	NANDAN IMPEX PVT LTD	2027603	18892846	18895345	2500
5	BBE1187559	ASHISH AGARWAL	2687559	3162030760	3162030799	40
6	BBE701907	GOVINDBHAI RAMJIBHAI PATEL (KARTA OF GOVINDBHAI RAMJIBHAI PATEL HUF)	2025648	16973831	16974330	500
7	BBE142182	MOHANSINH PARMAR NARESH MOHANSINH PARMAR	2025890	17157831	17158330	500
8	BBE155675	BHARATBAI SUBHANRAO SHINDE AJAY SUBHANRAO SHINDE	2030646	21323911	21324410	500
9	BBE103552	RAMJIBHAI NATHABHAI PATEL	2016480	11286826	11287325	500
10	BBE1245414	MANISH AGARWAL	2745414	3169036115	3169036154	40

Any person(s) who has / have claim / objection in respect of the aforesaid, should communicate the same to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent at M/s KFin Technologies Pvt. Ltd., (BOB Unit), Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032 (E-mail - [enward\\_rts@kfinetech.com](mailto:enward_rts@kfinetech.com)) or to the Bank at Bank of Baroda, Baroda Corporate Centre, Investors' Services Department, 7<sup>th</sup> Floor, C-26, G - Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 (E-mail - [investorservices@bankofbaroda.com](mailto:investorservices@bankofbaroda.com)), within Seven days from the date of publication of this advertisement else the Bank will proceed to issue duplicate share certificate(s) after the expiry of Seven days.

For Bank of Baroda  
Place: Mumbai  
Date: 02.11.2020  
P. K. Agarwal  
Company Secretary

**MAJESCO MAJESCO LIMITED**

Registered Office: MNDC, MBP-P-136, Mahape, Navi Mumbai - 400 710, Maharashtra, India  
Corporate Identification Number (CIN): L72300MH2013PLC244874  
Phone: +91 22 6150 1800; Email: [investors.grievances@majesco.com](mailto:investors.grievances@majesco.com) Website: [www.majescold.in](http://www.majescold.in)  
Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Varika Rastogi

**CORRIGENDUM FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF MAJESCO LIMITED ("COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER PROCESS UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS")**

This corrigendum to public announcement ("Corrigendum") should be read in continuation of and in conjunction with the public announcement dated November 02, 2020 ("PA"), which was published in the Business Standard (English - all editions), Business Standard (Hindi - all editions) and Navshakti (Marathi - Mumbai edition) on November 03, 2020. Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meanings as ascribed in the PA, unless otherwise defined.

The Company had decided that the record date for the purpose of determining the entitlement and the names of the shareholders who shall be eligible to participate in the Buyback, in terms of regulation 9(i) of the Buyback Regulations ("Record Date"), shall be Thursday, November 12, 2020, and the same was disclosed in the PA. In order to ensure that the Shareholders have sufficient notice regarding the Record Date, the Company has decided to revise the Record Date from Thursday, November 12, 2020 to Friday, November 13, 2020. In view of this, the Shareholders are requested to note that Record Date for the purposes of the Buyback shall be Friday, November 13, 2020, and all references to the Record Date in the PA must be read accordingly.

Except as detailed in this Corrigendum, the other contents and terms in the PA remain unchanged. A copy of this Corrigendum is expected to be available on the websites of SEBI ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)), Stock Exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and the Company ([www.majescold.in](http://www.majescold.in)).

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors accepts responsibility for all the information contained in this Corrigendum and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

**For and on behalf of the Board of Directors of Majesco Limited**

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Farid Kazani Managing Director DIN: 06914620	Radhakrishnan Sundar Executive Director DIN: 00533952	Varika Rastogi Company Secretary M No.: F7864

Date : November 03, 2020  
Place : Mumbai

**EXCEEDING EXPECTATIONS IN CHALLENGING TIMES**

CONSOLIDATED LOAN ASSETS UNDER MANAGEMENT ₹52,286 CRS\*

CONSOLIDATED PROFIT AFTER TAX ₹1,788 CRS\*

CONSOLIDATED NET WORTH ₹13,499 CRS\*

BRANCH NETWORK OF 5,381\*

CUSTOMERS SERVED PER DAY 2,00,000\*

**MUTHOOT FINANCE**  
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>TH</sup> SEPTEMBER, 2020

₹ in Crores

PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED		
	H1 FY 21	H1 FY 20	% Increase YOY	FY 20	H1 FY 21	H1 FY 20	FY 20
Total Revenue (₹)	4,970	3,999	24%	8,723	5,431	4,479	9,707
Profit Before Tax (₹)	2,325	1,864	25%	4,057	2,396	1,980	4,260
Profit After Tax (₹)	1,735	1,388	25%	3,018	1,788	1,472	3,169
Net Worth (₹)	13,197	10,599	25%	11,572	13,499	10,805	11,829
Earnings Per Share (₹ 10/- each) (Basic) (₹)	43.26	34.64	25%	75.31	44.37	36.34	78.30
Book Value Per Share (₹)	328.82	264.48	24%	288.43	336.50	269.62	294.75
Capital Adequacy Ratio (%)	25.73	27.11	-5%	25.47	-	-	-

Note: The above is an extract of Financial Results and is not a statutory advertisement required under SEBI guidelines. The detailed financials and investor presentation is available on the website of the Company at [www.muthootfinance.com](http://www.muthootfinance.com)

**India's Most Trusted Financial Services Brand**

**Muthoot Finance**  
muthootfinance.com


Muthoot Finance Limited ("Issuer"), is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a public issue of secured, redeemable and non-convertible debentures and has filed Draft Shelf Prospectus dated September 30, 2020 ("Draft Shelf Prospectus") with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The SEBI Limited ("BSE") and subsequently published the Addendum to the Draft Shelf Prospectus issued vide Addendum Advertisement dated October 14, 2020, which was published on October 15, 2020 in national daily newspaper with wide circulation and subsequently forwarded to BSE and SEBI on October 15, 2020. The Company has filed the Shelf Prospectus dated October 22, 2020 as well as Tranche I Prospectus dated October 22, 2020 ("Prospectus") with the Registrar of Companies Kerala and Lakshadweep ("ROC"), SEBI and BSE. The Draft Shelf Prospectus and the Prospectus are available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), Company at [www.muthootfinance.com](http://www.muthootfinance.com) and of the Lead Managers at [www.edelweissfin.com](http://www.edelweissfin.com), [www.jmf.com](http://www.jmf.com), [www.egil.com](http://www.egil.com) and [www.akgroup.co.in](http://www.akgroup.co.in). Investors are advised to read the Risk Factors on page 11 of the Shelf Prospectus carefully before taking an investment decision in the Tranche I Issue and should invest only on the basis of information contained in the Draft Shelf Prospectus and Prospectus.

Muthoot Finance Limited: CIN: L65910KL1997PLC011300; Reg. Office: Muthoot Chambers, Opposite Saritha Theatre Complex, Banerji Road, Ernakulam, Kerala - 682018, India.  
Tel: (+91 484) 239 4712, Fax (+91 484) 239 6506; Email: [mails@muthootgroup.com](mailto:mails@muthootgroup.com)

**Muthoot Family - 800 years of Business Legacy**

# आरआईएल की आय बाजार पूंजीकरण से पीछे

## कंपनी का बाजार पूंजीकरण 12 तिमाही में 150 फीसदी चढ़ा जबकि शुद्ध लाभ में संचयी बढ़त 24 फीसदी रही



**कृष्ण कांत मुंबई, 3 नवंबर**

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सोमवार को इंडेक्स के शेयरों में सबसे ज्यादा टूटा। कंपनी का शेयर 8.7 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ जबकि निफ्टी-50 इंडेक्स में 0.2 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। एक ऐसे शेयर में यह गिरावट काफी तेज रही, जो पिछले छह महीने से बाजार में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला था। आरआईएल का बाजार पूंजीकरण हालांकि अभी भी इस साल मार्च के स्तर से 75 फीसदी ऊपर है, जिसका योगदान इस अवधि में निफ्टी की बढ़त में करीब 30 फीसदी रहा।

विश्लेषकों ने कहा कि आरआईएल में आई हालिया गिरावट काफी समय से लंबित थी क्योंकि हालिया तिमाही में उसके

शुद्ध लाभ पर आधारित है। अब यह मूल्यांकन घटकर 30.3 गुने पर आ गया है, लेकिन आरआईएल इंडेक्स पर सबसे महंगे शेयरों में से एक बनी हुई है। हालांकि इसका अपवाद हिंदुस्तान यूनीलीवर, नेस्ले, एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आदि हैं। आरआईएल की दूसरी तिमाही के नतीजे पर मैक्वेरी रिसर्च के आदित्य सुरेश और ए दहीवाले ने लिखा है, आरआईएल के शेयर की कीमत कंपनी की बढ़त की आंकाशा के

निराध क्रिया-न्यवन की वजह से है और यह शेयर ब्लू स्काई वैल्युएशन पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज ने हालांकि आरआईएल के शेयर की 12 महीने की कीमत का लक्ष्य घटकर 1,320 रुपये कर दिया है, जो सोमवार के बंद भाव 1,876 रुपये के मुकाबले 30 फीसदी कम है। शेयर में गिरावट की तत्कालिक वजह दूसरी तिमाही में कंपनी के शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर आई 15 फीसदी की गिरावट और दूरसंचार व खुदरा

इकाई की हिस्सेदारी बिक्री से मिली बड़ी नकदी के बावजूद बेलेंस शीट में उम्मीद से कम सुधार है। इन चीजों ने कई विश्लेषकों को आरआईएल की आय के अनुमान की भविष्यवाणी पर दोबारा गौर करने को बाध्य किया है। मैक्वेरी रिसर्च के विश्लेषकों ने कहा है, हम आरआईएल की आय के मॉडल पर दोबारा गौर कर रहे हैं और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएस के अनुमान में 18 से 23 फीसदी की कमी

# संसेक्स 504 अंक उछला निफ्टी 11,800 अंक पार

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दिन वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने और घरेलू बाजारों में बैंक एवं वित्तीय कंपनियों में लिवाली से शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। इसके चलते बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का संसेक्स मंगलवार को 504 अंक उछल गया, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 11,800 अंक से ऊपर निकल गया।

बाजार सूत्रों ने बताया कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के दिन घरेलू शेयर बाजारों में वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख का अनुसरण किया। शंघाई, हॉंग कॉंग, सोल और टोक्यो के बाजारों में भी तेजी का रुख रहा।

कारोबार के शुरुआती दौर में यूरोपीय बाजारों में भी सकारात्मक रुख देखा गया। रिलायंस सिक्युरिटीज के संस्थागत व्यवसाय प्रमुखा अर्जुन यश महाजन ने कहा, वैश्विक बाजारों से मजबूती के संकेत मिलने से भारतीय शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। घरेलू बाजारों में बेहतर आर्थिक संकेत आने और अक्टूबर 2020 माह में विनिर्माण क्षेत्र से पीएमआई आंकड़े बेहतर रहने का भी निवेशकों की धारणा पर अनुकूल असर रहा।

date (the "Record Date") for the purpose of determining the entitlement and the names of the shareholders, who are eligible to participate in the Buyback.

9.2 The Equity Shares proposed to be bought back by the Company, as part of this Buyback Offer shall be divided in to two categories:

(a) reserved category for Small Shareholders (A "Small Shareholder" is defined in the Buyback Regulations as a shareholder, who holds equity shares having market value, on the basis of closing price of the Equity Shares on the recognized stock exchange registering the highest trading volume in respect of such shares, as on record date, of not more than ₹ 2,00,000 (Rupees Two Lakh Only)) and

(b) the general category for all other shareholders, and the entitlement of a shareholder in each category shall be calculated accordingly.

9.3 In accordance with Regulation 6 of the Buyback Regulations, 15% (fifteen per cent) of the number of Equity Shares which the Company proposes to buy back, or number of shares entitled as per shareholding of Small Shareholders, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders as part of this Buyback.

9.4 On the basis of shareholding as on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each shareholder to tender their Equity Shares in the Buyback. This entitlement for each shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective shareholder as on the Record Date and the ratio of Buyback applicable in the category to which such shareholder belongs. The final number of Equity Shares that the Company will purchase from each Eligible Shareholder will be based on the number of Equity Shares tendered. Accordingly, the Company may not purchase all of the Equity Shares tendered by an Eligible Shareholder.

9.5 In order to ensure that the same Eligible Shareholder with multiple demat accounts/folios do not receive a higher entitlement under the Small Shareholder category, the Equity Shares held by such Eligible Shareholder with a common PAN shall be clubbed together for determining the category (Small Shareholder or General Category) and the buyback entitlement. In case of joint shareholding, the Equity Shares held in cases where the sequence of the PANs of the joint shareholders is identical shall be clubbed together. In case of Eligible Shareholders holding Physical Shares, where the sequence of PANs is identical and where the PANs of all joint shareholders are not available, the Registrar to the Buyback will check the sequence of the names of the joint holders and club together the Equity Shares held in such cases where the sequence of the PANs and name of joint shareholders are identical. The shareholding of institutional investors like mutual funds, insurance companies, foreign institutional investors/foreign portfolio investors etc. with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes/sub-accounts and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the Registrar to the Buyback as per the shareholder records received from the Depositories. Further, the Equity Shares held under the category of "clearing members" or "corporate body margin account" or "corporate body - broker" as per the beneficial position data as on

Record Date with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are assumed to be held on behalf of clients.

9.6 After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by shareholders in that category, and thereafter from shareholders who have tendered over and above their entitlement in other category.

9.7 The Equity Shareholders' participation in the Buyback will be voluntary. The Equity Shareholders can choose to participate and get cash in lieu of Equity Shares to be accepted under the Buyback or they may choose to not participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding, post Buyback, without additional investment. The Equity Shareholders may also accept a part of their entitlement. The Equity Shareholders also have the option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other Equity Shareholders, if at all.

9.8 The maximum tender under the Buyback by any shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the shareholder as on the Record Date.

9.9 The Equity Shares tendered as per the entitlement by shareholders as well as additional shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in Buyback Regulations.

9.10 Detailed instructions for participation in the Buyback (tender of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant time table will be included in the Letter of Offer which will be sent in due course to the Eligible Shareholders as on the Record Date in compliance with the SEBI circular No. SEBI/CIR/CFD/DCR1/CIRP/2020/83 on "Relaxations relating to procedural matters - Takeovers and Buy-back" dated May 14, 2020, read with SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIRP/2020/139 dated July 27, 2020, as applicable.

10. COMPLIANCE OFFICER  
Nandini Sarkar, Company Secretary and Compliance Officer  
NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003  
Tel: +91 11 24360959 | Fax: +91 11 24360241  
Email: csntpc@ntpc.co.in | Website: www.ntpc.co.in  
Investor may contact the Compliance Officer for any clarification or to address their grievances, if any, during office hours i.e. 10:00 a.m. IST to 5:00 p.m. IST on all working days except Saturday, Sunday and public holidays.

11. REGISTRAR TO THE BUYBACK OFFER/ INVESTOR SERVICE CENTRE  
In case of any query, the shareholders may contact the Registrar & Transfer Agent on any day except Sunday and Public Holiday from 10:00 a.m. IST to 5:00 p.m. IST i.e. Monday to Friday and from 10:00 a.m. IST to 1:00 p.m. IST on Saturday, at the following address:

**Alankit**  
ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED  
205-208, Anarkali Complex, Jhandewala Extension, New Delhi - 110055  
Tel.: +91-11-4254 1234 / 2354; Fax: +91-11-2355 2001  
Contact Person: Mr. Mahesh Pandey  
Email: alankit\_ntpc@alankit.com; Website: www.alankit.com  
SEBI Reg No: INR000002532 | Validity Period: Permanent | CIN: U74210DL1991PLC042569

12. MANAGER TO THE BUYBACK OFFER  
**IDBI Capital**  
IDBI Capital Markets & Securities Limited  
6th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005  
Tel No.: +91 22 2217 1700 | Fax No.: +91 22 2215 1787  
Contact Person: Chandresh Sharma  
Email: ntpc.buyback@idbicapital.com | Website: www.idbicapital.com  
SEBI Registration Number: IM000010866 | Validity Period: Permanent  
Corporate Identity Number: U65990MH1993G01075578

13. DIRECTORS' RESPONSIBILITY  
"As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that the information in this Public Announcement contain true, factual and material information and shall not contain any misleading information."

For and on behalf of the Board of Directors of NTPC Limited		
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Gurdeep Singh Chairman and Managing Director (DIN: 00307037)	Anil Kumar Gautam Director (Finance) (DIN: 08293632)	Nandini Sarkar Company Secretary (Membership No: FCS 4977)

Date: November 3, 2020 Place: Delhi

**मिश्र धातु निगम लिमिटेड**  
निगमित पहचान संख्या (CIN): L14292TG1973GOI001660  
पंजी. कार्या: पीआ- कचनबाग, हैदराबाद-500058, तेलंगाना  
Tel. No: 040-2418 4515 Fax No: 040-2434 0214  
Email Address: company.secretary@midhani-india.in Website: www.midhani-india.in

**सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(ए) के अनुपालन में, मिश्र धातु निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही/छमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडलोन व समग्र) पर विचार करने और स्वीकृत करने के लिए बुधवार, 11 नवंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी। इनवेस्टर इस संबंध में विस्तृत विवरण के लिए कंपनी की वेबसाइट [www.midhani-india.in](http://www.midhani-india.in) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) देख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रोहेबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन में, कंपनी के इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो उपरोक्त वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटों तक बंद रहेगी।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के लिए हस्ता./-  
पॉल एन्टोनी  
कंपनी सचिव व  
अनुपालक अधिकारी

स्थान : हैदराबाद  
दिनांक : 03 नवंबर, 2020

**Emmbi**  
REGD. OFF.: 99/2/18/9, Madhuban Industrial Estate, Madhuban Dam Road, Rakholi Village, U.T. of Dadra & Nagar Haveli, Silvassa - 396230  
CIN: L17120DN1994PLC000387, Tel: +91 (0260) 320 0948, Fax: +91 22 6784 5506 E-mail: info@emmbi.com, Website: www.emmbi.com

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS**  
**SUB: TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE DEMAT ACCOUNT OF THE IEPF AUTHORITY**

This Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to the provisions of Sections 124 and 125 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "IEPF Rules") as amended from time to time.

In terms of the IEPF Rules, all shares in respect of which dividend has not been claimed or paid to the shareholders for the last seven consecutive years or more shall be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority within 30 days from the due date of transfer. Shareholders may note that the final dividend declared by the Company for the financial year 2012-2013, which remain unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the IEPF Authority within 30 days from the date of its becoming due to be credited.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificates held by them for the purpose of transfer of share(s) to the DEMAT Account of the IEPF Authority and upon issue of such new share certificate(s), the original share certificate(s) which stand registered in their name(s) will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Pursuant to the provisions of the IEPF Rules, the Company has sent individual notices to the latest available addresses of the shareholders whose dividends are lying unpaid/unclaimed for the last seven consecutive years or more, inter alia, providing details of shares to be transferred to IEPF Authority.

Further in terms of the IEPF Rules the Company has uploaded names of the shareholders, whose dividend has remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years and whose shares are liable to get transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority along with their folio numbers or DP ID-Client ID on its website at [www.emmbi.com](http://www.emmbi.com) for information and action necessary by the shareholders.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Authority, including all benefits accruing on sum shares, if any, can be claimed back after the following procedure prescribed in the IEPF Rules. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed to be adequate notice for issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of the shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority.

The concerned shareholders are requested to claim their unclaimed/unpaid dividend amount(s) on or before 18th November, 2020. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 18th November, 2020, the Company shall with a view to comply with the requirements of the IEPF Rules, transfer the shares to the DEMAT Account at the IEPF Authority.

In case of any claims or queries, the shareholders are requested to contact the Secretariat Department of the Company at Valcha Chambers, 3rd Floor, Opp. Infinity Mall, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400053; Phone: 022-46725555; Fax: 022-67845506; Email id: investor.grievances@emmbi.com; Website: www.emmbi.com or its Registrars: Datamatics Business Solutions Limited (Formerly known as Datamatics Financial Services Limited) Unit: Emmbi Industries Limited, Plot No. B-5, Part B Cross Lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai 400093; Tel: 022 66712001/66712238, Email id investorsqry@datamaticsbpm.com and Website: www.datamaticsbpm.com.

By order of the Board,  
For Emmbi Industries Limited  
Sd/-  
Kaushal Patvi  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date : 3<sup>rd</sup> November, 2020

**Khadims**  
KHADIM INDIA LIMITED  
Registered Office: "Kankaria Estate", 5th Floor, 6, Little Russell Street, Kolkata - 700071, West Bengal, India  
Website: www.khadims.com  
Tel No.: +91 33 4009 0501; Fax No.: +91 33 4009 0500  
e-mail: compliance@khadims.com  
CIN: L19129WB1981PLC034337

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable Regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, November 11, 2020** inter alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended **September 30, 2020**.

This information is also available on [www.khadims.com](http://www.khadims.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For and on behalf of Khadim India Limited  
Sd/-  
Abhijit Dan  
Company Secretary & Head-Legal

Place: Kolkata  
Date: November 03, 2020

**MAJESCO**  
**MAJESCO LIMITED**

Registered Office: MNDC, MBP-P-136, Mahape, Navi Mumbai - 400 710, Maharashtra, India  
Corporate Identification Number (CIN): L72300MH2013PLC244874  
Phone: +91 22 6150 1800; Email: investors.grievances@majesco.com Website: www.majescoldt.in  
Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Varika Rastogi

**CORRIGENDUM FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF MAJESCO LIMITED ("COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER PROCESS UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS")**

This corrigendum to public announcement ("Corrigendum") should be read in continuation of and in conjunction with the public announcement dated November 02, 2020 ("PA"), which was published in the Business Standard (English - all editions), Business Standard (Hindi - all editions) and Navshakti (Marathi - Mumbai edition) on November 03, 2020. Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meanings as ascribed in the PA, unless otherwise defined.

The Company had decided that the record date for the purpose of determining the entitlement and the names of the shareholders who shall be eligible to participate in the Buyback, in terms of regulation 9(i) of the Buyback Regulations ("Record Date"), shall be Thursday, November 12, 2020, and the same was disclosed in the PA. In order to ensure that the Shareholders have sufficient notice regarding the Record Date, the Company has decided to revise the Record Date from Thursday, November 12, 2020 to Friday, November 13, 2020. In view of this, the Shareholders are requested to note that Record Date for the purposes of the Buyback shall be Friday, November 13, 2020, and all references to the Record Date in the PA must be read accordingly.

Except as detailed in this Corrigendum, the other contents and terms in the PA remain unchanged. A copy of this Corrigendum is expected to be available on the websites of SEBI ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)), Stock Exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and the Company ([www.majescoldt.in](http://www.majescoldt.in)).

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors accepts responsibility for all the information contained in this Corrigendum and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Majesco Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Farid Kazani Managing Director DIN: 06914620	Radhakrishnan Sundar Executive Director DIN: 00533952	Varika Rastogi Company Secretary M No.: F7864

Date : November 03, 2020  
Place : Mumbai

**एनएमडीसी लिमिटेड**  
(भारत सर्वकार का उद्यम)  
संजिन भवन, 10-3-31/1/ए, कैमल हिल्स, माताव पैक, हैदराबाद-500 028.  
CIN: L13100TG1958GOI001674

**ई-निविदा सूचना (घरेलू बोली के लिए खुली निविदा प्रणाली)**  
संविदा विभाग / अभियांत्रिकी एवं परियोजना विभाग  
निविदा प्रणाली सं. : सु (संविदा)/ई-हाउस/केपीएस/आरटी/2020/231, दि. 04.11.2020  
(एनएमडीसी संदर्भ सं. : एनएमडीसी/एचओ/58/20-21/ईटी/617)

एनएमडीसी "बीआईओपेन, किरंटुल कॉम्प्लेक्स के घोषी क्षेत्र में पूर्वनिर्मित कंटेनराइज्ड सबस्टेशन 33 केवी / 6.6 केवी / 3.3 केवी के औज़ादन, निर्माण, आपूर्ति, इन्वेंशन, परीक्षण तथा संस्थापन" कार्य के लिए एक मुक्त टर्नकी (एलएसटीके) आधार पर एनएमडीसी वेबसाइट (एनएमडीसी की ई-निविदा सेवा प्रदाता) : <http://mstcecommerce.com> पर ई-निविदा प्रणाली में बोलियां आमंत्रित करता है।

ई-बोली के लिए अनुसूची तथा विस्तृत एनआईटी सहित अपेक्षित पूर्व-योग्यता एवं निविदा दस्तावेज अवलोकन / डाउनलोड करने के लिए प्रत्याशित बोलीकर्ता एनएमडीसी की वेबसाइट लिंक: <https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmcd/> पर जाएं तथा नये उपयोगकर्ता के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण करें। अतिरिक्त सहायता के लिए वेंडर गाइड का संदर्भ ले सकते हैं। एनएमडीसी ई-निविदा प्लेटफॉर्म का लिंक एनएमडीसी वेबसाइट [www.nmcd.co.in](http://www.nmcd.co.in) पर भी उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज एनएमडीसी की वेबसाइट [www.nmcd.co.in](http://www.nmcd.co.in) तथा सीपीपी पोर्टल <http://eprocure.gov.in> पर भी एक्सेस किया जा सकता है।

निविदा से संबंधित कोई शुद्धिपत्र उपरोक्त वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा। प्रत्याशित बोलीकर्ता शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, के लिए समग्र-समय पर उपरोक्त वेबसाइटों देखें और नोट करें। अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए मुख्य महाप्रबंधक (संविदा), एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद, फ़ैक्स सं. 040-23534746, दूरभाष सं. 040-23532800, ई-मेल : [contracts@nmcd.co.in](mailto:contracts@nmcd.co.in) पर संपर्क किया जा सकता है।  
मुख्य महाप्रबंधक (संविदा)

दिवान हाऊसिंग फायनन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
राष्ट्रीय कार्यालय : एचडीआयएन टॉवर, बी विंग, ६ वा मजला, अर्नात कामनाशिल असेट्स अँड एकोमोर्ट ऑफ सिव्हरिटी इन्टेरेंट
शाखा कार्यालय : पिरत बाग, बिल्डिंग ए तरा आणि १ला मजला, एम्सिस बँक बाजला, मोनालिझा बिल्डिंग समोर, अत्रा रोड, हरि निवास संकल, नोपाडा, ठाणे (पश्चिम) ४००६०२

मागणी सूचना
सिव्हरिटी इन्टेरेंट (एकोमोर्ट) क्लब, २००२ च्या नियम ३(१) सहायका सिव्हरिटीग्रहण अँड फिन्डस्वॉन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड एकोमोर्ट ऑफ सिव्हरिटी इन्टेरेंट
अन्वय दिनांक हाऊसिंग फायनन्स कॉर्पोरेशन लि. (डीएचएफएल) चे प्राधिकृत अधिकारी आहेत. सरदर अंर्कच्या कलम १३(१२) सहायका सिव्हरिटी इन्टेरेंट (एकोमोर्ट) क्लब, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकार्यांना वापर करून प्राथिपत्र अधिकार्यांनी सरदर अंर्कच्या कलम १३(१२) अन्वये मागणी सूचना जारी करून खालील कर्जदारांना (सरदर कर्जदारांना) ज्या खाती वगळीत केले आहेत त्या, त्यांना जारी केलेल्या संश्लिप्त सूचनेमधील मनुष्य केलेल्या कर्जाची परतकड करपास्ये सांगितले आहे. वरिल खातीत, बाजूने पुन्हा एकदा सरदर कर्जदारांना सूचना देऊन आज पुन्वेच्या प्रविटीमधून ६० दिवसांत खाती दुर्बललेली समजून, दिलेल्या ताखे(बाजू) मागणी प्रदानाच्या आणि किती वरतून एकदा सरदर कर्जदारांनी केलेल्या कर्जा आणि अन्य कोणत्याही स्तरावये/लिखित अंतर्गत देऊ असलेल्या सरदर मागणी सूचनेने दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे पुढील व्याजास डीएचएफएलला सरदर करपास्ये सांगितले आहे. कर्जाच्या निवारण परतकडीलाही तारखे मनुष्य सरदर कर्जदारांनी अनुमते खातीत मागल्या डीएचएफएलकडे मागण देऊन्या आहेत.

Table with 3 columns: मागणी सूचनेची तारीख आणि कर्जाचा उल्लेख, मागणी सूचनेची तारीख आणि कर्जाचा उल्लेख, मिळकतीचा पत्ता. Contains multiple rows of financial data and notices.

Future Lifestyle Fashions Limited
CIN: L52100MH2012PLC231654
Regd. Off.: Knowledge Group, Shyam Nagar, Off. Jogheshwari-Vikhrol Link Road, Jogheshwari (East), Mumbai - 400 060.
Tel. No.: +91 22 4055 2200; Fax No.: +91 22 4055 2201
Website: www.futurelifestyle.in; Email: investorrelations@futurelifestyle.in

Tree House Education & Accessories Limited
Regd. Office: 101, Sapphire Plaza, Dadabhai Road, Opp. CNMS School, Vile Parle (W), Mumbai - 400056
Email: compliance@treehouseplaygroup.net
Website: www.treehouseplaygroup.net
CIN No: L80101MH2006PLC163028

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Tree House Education & Accessories Limited will be held on Thursday, November 12, 2020 at 04:00 PM at its registered office address, Mumbai, inter alia, to consider and approve:
1. The Un-audited Financial Results & Limited Review Report of the Company's Auditor for the quarter and half year ended September 30, 2020.
2. Any other business with the permission of Chair.

LIC HFL LIC HOUSING FINANCE LTD
एलआयसी हाऊसिंग फायनन्स लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय : बाँबे वॉर्ग बिल्डिंग, २रा मजला, ४५/४७, वीर नरिमन रोड, मुंबई - ४०० ००१.
कॉर्पोरेट कार्यालय : १३१, मेकर टॉवर, एफ फिन्गार रोड, १३ वा मजला, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५.
कॉर्पोरेट आवडवैट्टी नंबर : एल६५९२२एमएए९९८९एलसी०५२२२७
वेबसाईट : www.lichousing.com | ईमेल : lichousing@lichousing.com

जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
बकील : येतन कुर्बे
वसई येथील मे. २ रे सहा दिवाणी न्यायाधीश का. स्त. हनुवते न्यायालयात जाहीर नोटीस
दि. नो. अर्ज : ३३/२०२०
निष्णणी क्र. : ०६
पुढील तारीख : ०६/११/२०२०

JATTASHANKAR INDUSTRIES LIMITED
CIN L17110MH1988PLC048451
Regd office: 11, Parasram Apartment, Film City Road, Opp. Bank of India, Gokuldharm, Goregaon (East), Mumbai-400663.
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th November, 2020, inter alia, to consider and approve Unaudited Financial Results for the second quarter ended 30th September, 2020.

MAJESCO MAJESCO LIMITED
Registered Office: MNDC, BHP-P-136, Mahape, Navi Mumbai - 400 710, Maharashtra, India
CORRIGENDUM FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF MAJESCO LIMITED ("COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER PROCESS UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS")

LIC HOUSING FINANCE LTD
एलआयसी हाऊसिंग फायनन्स लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय : बाँबे वॉर्ग बिल्डिंग, २रा मजला, ४५/४७, वीर नरिमन रोड, मुंबई - ४०० ००१.
कॉर्पोरेट कार्यालय : १३१, मेकर टॉवर, एफ फिन्गार रोड, १३ वा मजला, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५.
कॉर्पोरेट आवडवैट्टी नंबर : एल६५९२२एमएए९९८९एलसी०५२२२७
वेबसाईट : www.lichousing.com | ईमेल : lichousing@lichousing.com

JSW Energy Limited
CIN : L74999MH1994PLC077041
Registered Office: JSW Centre, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Tel.: 022-4286 1000 Fax: 022-4286 3000 Email: jswel.investor@jsw.in Website: www.jsw.in

Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Six Months Ended 30.09.2020. Table with columns: Particulars, Quarter Ended 30.09.2020, Six Months 30.09.2020, Quarter Ended 30.09.2019. Includes detailed financial data and a concluding note.

Amit International Limited
CIN: - L17110MH1994PLC076660
Registered Office: - A/403, Dalamal Chambers, New Marine Lines, Mumbai City 400020
E-mail id: - amitint03@yahoo.com

SPECTRA INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Plot No. 9, Spectra Compound, Ramchandra Lane Extn., Kanchpada II, Malad (W), Mumbai 400 064.
Tel: 022- 28893977/ 33, Fax: 022-28891342.
Email: sept12@rediffmail.com
Website: www.spectraindustries.co.in
CIN: L74999MH1992PLC067849

Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd.
CIN: U67190MH2005PTC153471
2101-A, 21st Floor, A Wing, Marathon Futurex, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Telephone: +91 22 6731 0000
Fax: +91 22 2301 9422
Email: mfservices@invesco.com
www.invescomutualfund.com
NOTICE CUM ADDENDUM
Addendum to the Statement of Additional Information of Invesco Mutual Fund
Notice is hereby given that Invesco Trustee Private Ltd. ("the Trustee to Invesco Mutual Fund") has decided to carry out following change to Statement of Additional Information ("SAI") of Invesco Mutual Fund ("the Fund"):

Table with 5 columns: Name, Age (Yrs), Designation, Educational Qualification, Total No. of Years of Experience / Type & Nature of Experience, Assignments held (During last 10 years). Includes details for Mr. Abhishek Anand.

All other terms & conditions of the SAI of the Fund will remain unchanged.
This addendum forms an integral part of the Statement of Additional Information of Invesco Mutual Fund, as amended from time to time.
For Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd. (Investment Manager for Invesco Mutual Fund)
Sd/- Saurabh Nanavati Chief Executive Officer
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.